



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 219 राँची, गुरुवार, 13 फाल्गुन, 1937 (श०)
3 मार्च, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

25 फरवरी, 2016

संख्या-1/स्था०/स्था० समिति० -02/2016/न०वि०-1035 --नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-IV में अंकित स्थान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्र०सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान पदस्थान	नव पदस्थापित स्थान
i	ii	iii	iv
1	श्री मुरारी भगत, अधीक्षण अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त।	अधीक्षण अभियंता, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड।
2	श्री योगेन्द्र सिंह, कार्यपालक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त।	कार्यपालक अभियंता, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।
3	श्री रंजन कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त।	कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड।
4	श्री बिनोद प्रसाद, कार्यपालक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त।	कार्यपालक अभियंता, धनबाद नगर निगम, धनबाद।

5	श्री शम्भु प्रसाद, कार्यपालक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त।	कार्यपालक पदाधिकारी, मिहिजाम नगर पंचायत।
6	श्री राजेश आईन्द, कार्यपालक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त।	कार्यपालक अभियंता, धनबाद जल पर्षद, धनबाद।
7	श्री नवल किशोर प्रसाद, कार्यपालक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त।	कार्यपालक पदाधिकारी, गिरिडीह नगर परिषद।
8	श्री चन्दन कुमार, सहायक अभियंता	पथ निर्माण विभाग से सेवा प्राप्त।	सहायक अभियंता, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची।
9	श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सहायक अभियंता	राँची नगर निगम द्वारा सेवा वापस।	कार्यपालक पदाधिकारी, जुगसलाई नगरपालिका।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
राहुल कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 219—50 ।